

# सर्जरी से पहले कोविड-19 की जांच

## COVID-19 Testing Before Surgery



पूर्व निर्धारित सर्जरी करवाने वाले सभी लोगों के लिए सर्जरी से पहले **COVID-19** का परीक्षण करवाना आवश्यक है। आपके स्वास्थ्य तथा हमारी स्टाफ की सुरक्षा के लिए:

- ➔ सर्जरी से 3 से 4 दिन पहले कोविड-19 की जांच करवाएं।
- ➔ सर्जरी से पहले 14 दिन (यदि सर्जरी में 14 दिन से कम दिन बाकी हैं तो अधिक से अधिक समय) अन्य लोगों से शारीरिक दूरी बनाकर रखें।
- ➔ यदि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है और आप बीमार हो जाते हैं तो अपने सर्जन से संपर्क करें।

### कोविड-19 की जांच कहां करवाएं

कोविड-19 के जांच केंद्रों की सूची प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन [fraserhealth.ca/COVID19testing](https://fraserhealth.ca/COVID19testing) पर जाएं या इस QR कोड को स्कैन करें।

हम हर रोज़ अधिक से अधिक लोगों की जांच करने की पूरी कोशिश करते हैं।

मुलाकात का समय पहले से ऑनलाइन तय करें (सर्वोत्तम विकल्प)। आप फ़ोन पर भी मुलाकात बुक कर सकते हैं।

#### ■ ऑनलाइन बुकिंग

[fraserhealth.secureform.ca](https://fraserhealth.secureform.ca) पर जाएं या यह QR कोड स्कैन करें।

यदि आपके मनपसंद समय या तिथि पर कोई मुलाकात का समय उपलब्ध नहीं है, तो कृपया बार-बार देखें। कई बार स्थान खाली होते हैं और हम पूरा दिन अतिरिक्त स्थान जोड़ते रहते हैं।

- फ़ोन द्वारा बुकिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, हर रोज़ ऑनलाइन बुकिंग पूरी करने या आपके लिए मुलाकात तय करने में सहायता के लिए।

### अपने परिणाम कैसे प्राप्त करें

परिणाम उपलब्ध होते ही जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए:

- **टैक्सट द्वारा:** [results.bccdc.ca](https://results.bccdc.ca) पर जाएं या इस QR कोड को स्कैन करें
- **हेल्थ गेटवे:** [healthgateway.gov.bc.ca](https://healthgateway.gov.bc.ca) पर जाएं या इस QR कोड को स्कैन करें फ़ोटो वाले बी.सी. सर्विसेज़ कार्ड वाले किसी भी व्यक्ति के लिए टेक्सट या ईमेल के द्वारा
- **माई ई-हेल्थ** (आयु 16 वर्ष या अधिक): [myehealth.ca](https://myehealth.ca) पर खाता खोलें
- **कोविड-19 के लिए नेगेटिव परिणाम लाइन:** 8:30 बजे सुबह से 4:30 बजे शाम हर रोज़

QR कोड



604-587-3936



1-833-707-2792

QR कोड ('quick response' कोड का संक्षिप्त रूप) एक प्रकार का बारकोड है जिसे आप अपने स्मार्ट कैमरे की सहायता से स्कैन करते हैं। स्कैन हो जाने पर यह आपको उस वेब पृष्ठ पर ले जाता है।